

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2016—श्रावण 7, शक 1938

### भाग २

#### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.